



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 143-2017/Ext.] CHANDIGARH, SATURDAY, AUGUST 12, 2017 (SRAVANA 20, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 12 अगस्त, 2017

संख्या T&CP/GMDA/PF-89-III/2017/19918.— गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2017 (2017 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 2), की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची I में यथा विनिर्दिष्ट सीमाओं सहित क्षेत्र और अनुसूची II में यथा विनिर्दिष्ट और इससे संलग्न योजना में दर्शाए गए गुरुग्राम जिले में नियंत्रित क्षेत्र की सीमाओं के भीतर पड़ने वाले क्षेत्र को उक्त धारा के प्रयोजन के लिए गुरुग्राम महानगर क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात्:—

अनुसूची I

गुरुग्राम महानगर क्षेत्र में झाईग संख्या जी.एम.डी.ए./1/2017, दिनांक 10 जुलाई, 2017 के साथ पठित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पूर्ण क्षेत्र समाविष्ट होगा ।

उत्तर :- बिन्दु 'ए' से आरम्भ करते हुए जहां गांव खण्डेवला, तिरपारी और जटौला की राजस्व सीमा का मिलान बिन्दु है, तत्पश्चात् गांव जटौला और ताजनगर की उत्तरी सीमा के साथ, तत्पश्चात् गांव फाजिलपुर बादली, फारूखनगर की पश्चिमी राजस्व सीमा के साथ, तत्पश्चात् सरवसीरपुर की उत्तरी राजस्व सीमा के साथ, तत्पश्चात् गांव मुबरिकपुर की पश्चिमी राजस्व सीमा, के साथ, तत्पश्चात् गांव मुबरिकपुर, झंजरोला, इकबालपुर, मंकरोला, बुढेडा, खेडकीमाजरा, धनकोट, दौलताबाद, धर्मपुर, बाबूपुर की उत्तरी राजस्व सीमा के साथ, तत्पश्चात् गांव चौमाखंडा की पश्चिमी राजस्व सीमा के साथ, तत्पश्चात् गांव बजघेड़ा की दक्षिणी और पश्चिमी राजस्व सीमा के साथ तत्पश्चात् गांव बजघेड़ा, चौमाखेड़ा, कार्टरपुरी, डूंडाहेड़ा, नाथूपुर की उत्तरी राजस्व सीमा के साथ, तत्पश्चात् गांव नाथूपुर, सिकन्दरपुर घोसी की पूर्वी राजस्व सीमा के साथ बिन्दु 'बी' तक उत्तर की ओर जहां सिकन्दरपुर घोसी और चक्करपुर की सीमा को मिलता है ।

- पूर्वी :-** तत्पश्चात् बिन्दु 'ख' से गांव चक्करपुर, वजीराबाद, हैदरपुर वीरों, ग्वाल पहाड़ी, बालौला, बंधवाड़ी की पूर्वी राजस्व सीमा के साथ दक्षिण की ओर 'सी' बिन्दु तक जहां यह गांव रोजका गुज्जर की राजस्व सीमा को मिलता है ।
- दक्षिण :-** तत्पश्चात् बिन्दु 'सी' से गांव बंधवाड़ी, बहरामपुर, कादरपुर, भौंडसी, टिकली, गेरतपुरबास, बडगुज्जर, नैनवाल, की दक्षिण सीमा के साथ पश्चिम की ओर तत्पश्चात् गांव खेडकी की पूर्वी और दक्षिणी राजस्व सीमा के साथ, तत्पश्चात् गांव बाघनकी दक्षिणी राजस्व सीमा के साथ, तत्पश्चात् गांव लांगड़ा की पूर्वी राजस्व सीमा के साथ, तत्पश्चात् गांव उदयपुरी की पूर्वी और दक्षिणी राजस्व सीमा के साथ बिन्दु 'ए' तक जहां गांव उदयपुरी पथरेडी की सीमा को मिलता है ।
- पश्चिम :-** तत्पश्चात् बिन्दु 'डी' से गांव पथरेडी की पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी राजस्व सीमा के साथ दक्षिण की ओर, तत्पश्चात् गांव बिलासपुर की दक्षिणी और पश्चिमी राजस्व सीमा के साथ और तत्पश्चात् गांव बिनौला, फाजिलवास, फकरपुर, तत्पश्चात् जमालपुर की पश्चिमी राजस्व सीमा के साथ उत्तर की ओर तथा तत्पश्चात् गांव सांपका, जटौला की दक्षिणी राजस्व सीमा के साथ, तत्पश्चात् गांव जटौला से पश्चिमी राजस्व सीमा के साथ उत्तर की ओर बिन्दु 'ए' अर्थात् जहां बिन्दु आरम्भ होता है ।

अनुसूची II

गुरुग्राम महानगर क्षेत्र में नीचे दिए अनुसार अनुसूची II में विनिर्दिष्ट सम्पूर्ण क्षेत्र समाविष्ट होगा:-

(क) निम्नलिखित विकास योजना का भागरूप बनने वाले समस्त नियंत्रित क्षेत्र के भीतर पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र:-

- (i) हरियाणा राजपत्र अधिसूचना संख्या सी.सी.पी (एन.सी.आर)/एफ.डी.पी. - 2031 / जी.जी.एन./2012/3541, दिनांक 15 नवम्बर, 2012 द्वारा अधिसूचित गुंडगांव - मानेसर अर्बन कम्पलैक्स का भागरूप बनने वाला समस्त नियंत्रित क्षेत्र।
- (ii) नीचे यथा सूचीबद्ध गांव की राजस्व सम्पदा के भीतर हरियाणा राजपत्र अधिसूचना संख्या सी.सी.पी. (एन.सी.आर)/जी.जी.एन./एफ.जी.आर./डी.डी.पी 2031/2012/2660, दिनांक 21 अगस्त 2012, द्वारा अधिसूचित फारुखनगर प्रारूप विकास योजना के नियंत्रित क्षेत्र के भाग;
 1. फारुखनगर
 2. सरबसीरपुर
 3. फाजिलपुर बादली (भाग)
 4. जडौला
 5. मुबारिकपुर
 6. झांझरौला
 7. सुल्तानपुर (भाग)
 8. सैदपुर मोहम्मदपुर (भाग)
 9. इकबालपुर (भाग)
 10. कालियावास (भाग)
 11. मकडौला (भाग)
 12. बढैडा (भाग)
- (iii) हरियाणा राजपत्र अधिसूचना संख्या सी.सी.पी (एन.सी.आर)/एफ.डी.पी/(जी.पी)/जी.जी.एन/2010/3833, दिनांक 06 दिसम्बर, 2010 द्वारा अधिसूचित ग्वालपहाड़ी, बंधवाडी और बालौला विकास योजना का भागरूप बनने वाला समस्त नियंत्रित क्षेत्र है।
- (iv) नीचे यथा सूचीबद्ध गांव को राजस्व सम्पदा के भीतर हरियाणा राजपत्र अधिसूचना संख्या सी.सी.पी (एन.सी.आर)/एफ.डी.पी-2031/जी.जी.एन-एस.एच.एन/2012/3543, दिनांक 15 नवम्बर, 2012 द्वारा अधिसूचित सोहना विकास योजना के नियंत्रित क्षेत्र का भाग:- 1 से 15 तक गांव के नाम।
 1. ग्वालपहाडी (भाग)
 2. बन्धवाडी (भाग)
 3. बालौला (भाग)
 4. बहरामपुर (भाग)
 5. उल्हावास (भाग)
 6. कादरपुर (भाग)
 7. हसनपुर
 8. भौडसी (भाग)
 9. टकलीमपुर
 10. टिकली
 11. सकतपुर
 12. गैरतपुर बास
 13. बड गुज्जर
 14. नौरगंपुर (भाग)
 15. मानेसर (भाग)

(v) नीचे सुचिबद्ध गांव की राजस्व के भीतर हरियाणा राजपत्र अधिसूचना संख्या सी.सी.पी (एन.सी.आर)/जी.जी.एन/एफ.डी.पी-2031/पी.टी.डी-एच.एम.डी/2013/308, दिनांक 28 जनवरी, 2013 द्वारा अधिसूचित पटौदी - हेलीमण्डी विकास योजना के नियंत्रित क्षेत्र का भाग:-

1. जटौला
2. ताजनगर
3. ख्वासपुर
4. ज्मालपुर
5. मोकलवास (भाग)
6. पथरेडी
7. चांदला डुंगरवास
8. बाघनकी
9. खेड़की
10. लॉगडा
11. उदयपुर
12. बिनौला
13. बिलापुर
14. फ़ैजलपुर बादली (भाग)
15. संपका
16. बाबरा बाकिपुर (भाग)
17. धाना (भाग)
18. कासन (भाग)

(ख) नगर निगम, गुरुग्राम के अधीन सम्पूर्ण क्षेत्र :-

(ग) नगर पालिका समिति, फारुखनगर के अधीन सम्पूर्ण क्षेत्र :-

(घ) गुरुग्राम जिले की निम्नलिखित ग्राम पंचायतों का आबादी देह :-

(i) **तहसील गुरुग्राम**

1. बजधैडा
2. बाबूपुर
3. धरमपुर
4. मोहम्मदधरी
5. दौलताबाद
6. खेड़की माजरा
7. धनकोट
8. गोपालपुर
9. बुढैडा
10. चन्दु
11. साधराना
12. गढ़ी हरसरू
13. हमीरपुर
14. वजीरपुर
15. ढौरका
16. मेवका

17. हयातपुर
18. कांकरौला
19. धाना
20. भांगरौला
21. बासरीया
22. पालड़ा
23. धुमसपुर
24. मैदावास
25. कादरपुर
26. नंगली उमरपुर
27. टिकली
28. अकलीमपुर
29. गैरतपुरबास
30. मकडौला

(ii) तहसील मानेसर

1. बढा
2. सिकन्दरपुर बढा
3. लखनौला
4. नवादा फतेहपुर
5. नहरपुर कासन
6. खोह
7. कासन
8. फ़ैजलवास
9. कुकडौला
10. सहरावॉ
11. ग्वालीयर
12. नैनवाल
13. मानेसर
14. बास खुसला
15. नौरंगपुर
16. शिकोहपुर (ढानीरामपुर)
17. हसनपुर
18. बिनौला
19. बिलासपुर
20. पथरेडी
21. चांदला डुंगरवास
22. लांगड़ा
23. उदयपुरी
24. बाघनकी
25. खेडकी
26. बड गुज्जर
27. सकतपुर

(iii) तहसील सोहना

1. भौडंसी
2. कादरपुर
3. बहरामपुर
4. उल्हावास

(iv) तहसील फारूखनगर

1. सुल्तानपुर
2. कालियावास
3. सैदपुर मोहम्मदपुर
4. खेन्टावास
5. धानावास
6. बाबरा बाकीपुर
7. ख्वासपुर
8. झुन्ड सराय आबाद
9. झुन्ड सराय विरान
10. बासलंबी
11. खरखडी
12. मोकलवास
13. फकरपुर
14. सांपका
15. जमालपुर
16. ततारपुर
17. जाटौला
18. जुडौला
19. ताजनगर
20. फाजिलपुर बादली
21. मुबारिकपुर
22. पातली हाजीपुर
23. इकबालपुर
24. झॉझरौला
25. सरबसीरपुर

अरुण कुमार गुप्ता,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT****Notification**

The 12th August, 2017

No. T&CP/GMDA/PF-89-III/2017/19918.— In exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 3 of the Gurugram Metropolitan Development Authority Ordinance, 2017 (Haryana Ordinance No. 2 of 2017), the Governor of Haryana hereby declares the area with the boundary as specified in the Schedule I given below and containing the area falling within the limits of controlled areas in Gurugram district as specified in Schedule II and shown in the plan appended hereto, to be Gurugram Metropolitan Area for the purposes of the said section, namely:-

SCHEDULE I

Gurugram Metropolitan Area shall comprise the whole of the area specified in Schedule to be read with the Drawing number GMDA/1/2017 dated 10.07.2017.

- North :-** Starting from point 'A' where the revenue boundary village Khandewla, village Tirpari and village Jatola meets thence moving towards north along the northern boundary of village Jatola and Tajnagar thence along the western revenue boundary of village Fazilpur Badli, Farukhnagar thence along northern revenue boundary of village Sarbasirpur, thence along western revenue boundary of village Mubarikpur thence along northern revenue boundary of village Mubarikpur, Jhanjrola, Iqbalpur, Mankrola, Budhera, Kherki Majra, Dhankot, Daultabad, Dharampur, Babupur, thence along western revenue boundary of village Chauma khera, thence along southern and western revenue boundary village Bajghera, thence along northern revenue boundary of village Bajghera Chauma khera, Carterpuri, Dundahera, Nathupur, thence along eastern revenue boundary of village Nathupur, Sikenderpur Ghosi upto point 'B' where boundary of village Sikenderpur Ghosi and Chakarpur meets.
- East :-** Thence moving from point 'B' towards south along the eastern revenue boundary of village Chakarpur, Wazirabad, Haiderpur viran, Gual-Pahari, Balola, Bandhwari upto point 'C' where it meets with revenue boundary of village Rojka Gujjar.
- South :-** Thence moving from point 'C' towards west along the southern revenue boundary of village Bandhwari, Behramur, Kadarapur, Bhondsi, Tikli, Gairatpur Bas, Badgujar, Nainwal, thence along eastern and southern revenue boundary of village Kherki, thence along southern revenue boundary of village Baghanki, thence along eastern revenue boundary of village Langra, thence along eastern and southern revenue boundary of village Udepuri upto point 'D' where boundary of village Udepuri and Pathreri meets.
- West :-** Thence moving from point 'D' towards south along the eastern, southern and western revenue boundary of village Pathreri, thence along southern and western revenue boundary of village Bilaspur and thence moving towards north along the western revenue boundary of village Binola, Fazalwas, Fakharpur, Tatarpur, Jamalpur and thence along southern revenue boundary of village Sanpka, Jatola, thence towards north along western revenue boundary village Jatola upto point 'A' i.e. the starting point.

SCHEDULE II

Gurugram Metropolitan Area shall comprise the whole of the area specified in Schedule II as below;

- (A) Complete area falling within all the controlled areas forming the following development plans:
- (i) All the controlled areas forming Gurgaon-Manesar Urban Complex, Development Plan 2031 AD; notified *vide* Haryana Gazette Notification No. CCP(NCR)/FDP-2031/GGN/2012/3541, dated 15 November, 2012.
 - (ii) The parts of controlled area of the Farukhnagar Draft Development Plan; notified *vide* Haryana Gazette Notification No. CCP(NCR)/GGN/FGR/DDP-2031/2012/2660, dated 21 August, 2012, within the revenue estate of villages as listed below;
 1. Farukhnagar
 2. Sarbasirpur
 3. Fazilpur Badli (Part)
 4. Jadhala
 5. Mubarikpur
 6. Jhanjrola
 7. Sultanpur (Part)
 8. Saidpur Mohammadpur (Part)
 9. Iqbalpur
 10. Kaliawas (Part)
 11. Makrola (Part)
 12. Budhera (Part)
 - (iii) All the controlled areas forming part of Gwal Pahari, Bandhwari and Balola Development Plan; notified *vide* Haryana Gazette Notification No. CCP(NCR)/FDP/(GP)/GGN/2010/3833, dated 6 December, 2010.
 - (iv) The parts of controlled area of the Sohna Development Plan notified *vide* Haryana Gazette Notification No. CCP(NCR)/FDP-2031/GGN-SHN/2012/3543, dated 15 November, 2012, within the revenue estate of villages as listed below;
 1. Gwal phari (Part)
 2. Bandhwari (Part)
 3. Balola (Part)
 4. Behrampur (Part)
 5. Ulhawas (Part)
 6. Kadarapur (Part)
 7. Hassanpur
 8. Bhondsi (Part)
 9. Aklimpur
 10. Tikli
 11. Sakatpur
 12. Gairatpur Bas
 13. Bar Gujjar
 14. Naurangpur (Part)
 15. Manesar (Part)

- (v) The parts of controlled area of the Pataudi-Haily Mandi Development Plan notified vide Haryana Gazette Notification No. CCP(NCR)/GGN/FDP-2031/PTD-HMD/2013/308, dated 28 January, 2013, within the revenue estate of villages as listed below:—
1. Jatola
 2. Tajnagar
 3. Khawaspur
 4. Jamalpur
 5. Mokalwas (Part)
 6. Pathreri
 7. Chandla Dungarwas
 8. Baghanki
 9. Kherki
 10. Langra
 11. Udeypur
 12. Binola
 13. Bilaspur
 14. Fazilpur Badli (Part)
 15. Sanpka
 16. Babra Bakipur (Part)
 17. Dhana (Part)
 18. Kasan (Part)
- (B) Complete area under Municipal Corporation, Gurugram;
- (C) Complete area under Municipal Committee Farukhnagar;
- (D) Abadi deh of following Gram Panchayats of Gurugram district;
- (i) **TEHSIL GURUGRAM**
1. Bajhgera
 2. Babupur
 3. Dharampur
 4. Mohammadheri
 5. Daultabad
 6. Kherki Majra
 7. Dhankot
 8. Gopalpur
 9. Budhera
 10. Chandu
 11. Sadhrana
 12. Garhi Harsaru
 13. Hamirpur
 14. Wazirpur
 15. Dhorka
 16. Meoka
 17. Hayatpur

18. Kankrola
19. Dhana
20. Bhangrola
21. Basharia
22. Palra
23. Dhumaspur
24. Medawas
25. Kadarapur
26. Nangli Umarpur
27. Tikli
28. Aklimpur
29. Gairatpur Bas
30. Mankrola

(ii) TEHSIL MANESAR

1. Badha
2. Sikanderpur Badha
3. Lakhnola
4. Nawada Fatehpur
5. Naharpur Kasan
6. Khoh
7. Kasan
8. Fazalwas
9. Kukdola
10. Sehrwan
11. Gwaliar
12. Nainwal
13. Manesar
14. Baskusla
15. Naurangpur
16. Shikohpur (Dhani Rampur)
17. Hassanpur
18. Binola
19. Bilaspur
20. Pathrari
21. Chandla Dungarwas
22. Langra
23. Udepuri
24. Baghanki
25. Kherki
26. Bar Gujjar
27. Sakatpur

(iii) TEHSIL SOHNA

1. Bhondsi
2. Kadarpur
3. Behrampur
4. Ulahwas

(iv) TEHSIL FARUKHNAGAR

1. Sultanpur
2. Kaliawas
3. Sadpur Mohammadpur
4. Khantawas
5. Dhanawas
6. Babra Bakipur
7. Khawaspur
8. Jhund Sarai Abad
9. Jhund Sarai Viran
10. Baslambi
11. Kharkhari
12. Mokalwas
13. Fakharpur
14. Sanpka
15. Jamalpur
16. Tatarpur
17. Jatola
18. Judola
19. Tajnagar
20. Fazilpur Badli
21. Mubarikpur
22. Patli Hajipur
23. Iqbalpur
24. Jhanjrola
25. Sarbasirpur

ARUN KUMAR GUPTA,
Principal Secretary to Government Haryana,
Town and Country Planning Department.

